



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1977/ज्येष्ठ 30, 1899

No. 197]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1977/JYAISTHA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संरचना दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June 1977

G.S.R. 385(E)—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2), and clause (b) of sub-section (7), of section 58A, read with section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, Commencement and application.**—(1) These rules may be called the Non-banking Financial Companies and Miscellaneous Non-banking Companies (Advertisement) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the 1st of July, 1977.

(3) They shall apply to all non-banking financial companies and miscellaneous non-banking companies.

2. **Definitions**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) “deposit” has the meaning assigned to it in the directions;

(b) “directions” means the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, or as the case may be, the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977;

- (c) "Miscellaneous non-banking company" has the meaning assigned to it in clause (g) of paragraph 3 of the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977;
- (d) "Non-banking financial company" has the meaning assigned to it in clause (1) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977.

3. **Form and particulars of advertisement.**—(1) Every company intending to invite or allowing or causing any other person to invite or cause to be invited on its behalf, any deposits from the public, other than its directors, shareholders or employees shall issue an advertisement for the purpose in a leading English newspaper and one vernacular newspaper circulating in the state in which the registered office of the company is situate.

(2) No such company shall issue or allow any other person to issue or cause to be issued on its behalf, any advertisement inviting deposits unless such advertisement is issued on the authority and in the name of the Board of Directors of the company and contains a reference to the conditions subject to which deposits shall be accepted by the company, the date on which the said Board of Directors has approved the text of the advertisement and the following information, namely:—

- (a) the name of the company;
- (b) the date of incorporation of the company;
- (c) the business carried on by the company and its subsidiaries with details of branches or units, if any;
- (d) brief particulars of the management of the company;
- (e) Names, addresses and occupations of the Directors;
- (f) profits of the company before and after making provisions for tax for the three financial years immediately preceding the date of advertisement;
- (g) dividends declared by the company in respect of the said years,
- (h) a summarised financial position of the company as in the two audited balance sheets immediately preceding the date of advertisement in the following form, namely:—

Summarised financial position of the company as appearing in the two latest audited balance sheets.

Liabilities	Figures for the latest financial year for which audited accounts are available	Figures for the financial year previous to the year referred to in col. 2	Assets	Figures for the latest financial year for which audited accounts are available	Figures for the financial year previous to the year referred to in col. 5
1	2	3	4	5	6
	Share Capital Reserve & surplus Secured loans Unsecured loans Current liabilities & provisions			Fixed assets Investments Current Assets Loans & Advances Misc. Expenditure Profit & loss account	
Total			Total		

NOTE.—Brief particulars of Contingent Liabilities may be added by way of footnote ;

- (i) The amount which the company can raise by way of deposits under the directions and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year;
- (j) a statement to the effect that on the day of the advertisement, the company has no overdue deposits other than unclaimed deposits or a statement showing the amount of such overdue deposits, as the case may be;
- (k) A declaration to the effect—
 - (i) that the company has complied with the provisions of the directions applicable to it;
 - (ii) that the compliance with the directions does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Reserve Bank of India; and
 - (iii) that the deposits accepted by the company (other than secured deposits, if any, accepted under the provisions of the directions, the aggregate amount of which may be indicated) are unsecured and ranking *pari passu* with other unsecured liabilities.

4 Validity of the advertisement—An advertisement issued in accordance with these rules shall be valid ~~until the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is issued or until the date on which the balance sheet is laid before the company in general meeting or where the annual, general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) whichever is earlier, and a fresh advertisement shall be made in each succeeding financial year for invitation of deposits during that financial year.~~

5 Copy of the advertisement to be filed with the Reserve Bank.—No advertisement shall be issued by or on behalf of company unless on or before the date of its issue, there has been delivered to the Regional Office of the Department of Non-Banking Companies of the Reserve Bank of India within whose jurisdiction the registered office of such company is situate, a copy thereof signed by a majority of the directors constituting the board of directors which approved the advertisement or by their agents authorised in writing.

Explanation—For the purpose of this sub-rule the date of the issue of the newspaper in which the advertisement appears shall be taken as the date of issue of the advertisement

[No. 1/151/75-CLXIV]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 1977

सा० का० नि० 385 (अ) —कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क की उपधारा (2) के खंड (ख) और उपधारा 7 के खंड (ख), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, आरम्भ और लागू होना :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी और प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी (विज्ञापन) नियम, 1977 है।

(2) ये एक जुलाई, 1977 को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनियों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “निक्षेप” का वही अर्थ है जो इसका निदेशो में है ;
- (ख) “निदेशो” से, यथास्थिति, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) 1977 या प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 अभिप्रेत है ;
- (ग) “प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी” का वही अर्थ है जो उसका प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 के पैरा 3 के खंड (छ) में है,
- (घ) “गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी” का वही अर्थ है जो उसका गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ठ) में है ।

3. विज्ञापन का स्वरूप और उसकी विशिष्टियां.—(1) प्रत्येक कम्पनी जिसका आशय, अपने निवेशको, शेयरधारको या कर्मचारियों से भिन्न, जनता से निक्षेप आमन्त्रित करने का या करने की अनुज्ञा देने का या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित करने देने का या उससे आमन्त्रित कराने का हो, इस प्रयोजन के लिए किसी एक प्रचलित अंग्रेजी समाचारपत्र में और देशी भाषा के ऐसे समाचारपत्र में जिसका उस राज्य में प्रचलन हो, जिसमें कि कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, एक विज्ञापन निकालेगी ।

(2) कोई ऐसी कम्पनी तब तक ऐसा विज्ञापन, जिसमें निक्षेप आमन्त्रित किए जायें, नहीं निकालेगी या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को निकालने की या उसके द्वारा निकलवाए जाने की अनुज्ञा नहीं देगी जब तक कि ऐसा विज्ञापन कम्पनी के निदेशक बोर्ड के प्राधिकार से और उसके नाम में न निकाला जाए और जब तक कि उसमें वे शर्तें जिन पर कम्पनी द्वारा निक्षेपों का प्रतिग्रहण किया जाएगा, वह तारीख जिसको उक्त निदेशक बोर्ड ने विज्ञापन के पाठ को अनुमोदन किया है और निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख न किया जाए, अर्थात्—

- (क) कम्पनी का नाम ,
- (ख) कम्पनी के निगमन की तारीख ;
- (ग) कम्पनी और उसकी समनुसंगियों द्वारा चलाया जा रहा कारखाना, उसकी शाखाओं और एककों, यदि कोई हो, के व्योरो सहित ,
- (घ) कम्पनी के प्रबन्धतंत्र की संक्षेप में विशिष्टियां ;
- (ङ) निदेशको के नाम, पते और व्यवसाय ;
- (च) विज्ञापन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की बाबत कम्पनी के कर के लिए व्यवस्था करने के पूर्व तथा पश्चात् लाभ ;

(छ) उक्त वर्षों की बाबत कम्पनी द्वारा घोषित डिविडेड ,

(ज) विज्ञापन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दो संपरीक्षित तुलन पत्रों में दिखाई गई कम्पनी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति जो निम्नलिखित प्ररूप में होगी, अर्थात् .—

कम्पनी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति जैसी कि अन्तिम संपरीक्षित तुलनपत्रों में दिखाई गई है ।

देनदारी अन्तिम वित्तीय वर्ष के, स्तम्भ 2 में आस्तिया अन्तिम वित्तीय वर्ष के, स्तम्भ 5 में					
जिसका संपरीक्षित लेखा निर्दिष्ट वर्ष				जिसका संपरीक्षित लेखा निर्दिष्ट वर्ष	
उपलब्ध हो, आकड़े	के पूर्ववर्ती			उपलब्ध हो, आकड़े	के पूर्ववर्ती
	वित्तीय वर्ष				वित्तीय वर्ष
	के आकड़े				के आकड़े

1	2	3	4	5	6
	अश पूजी आरक्षित और			स्थिर आस्तियां विनिधान	
	अधिशेष प्रतिभूत ऋण			चालू आस्तियां ऋण	
	अप्रतिभूत ऋण चालू			और अग्रिम प्रकीर्ण	
	देनदारी और व्यवस्थाएं			व्यय लाभ एवं	
				हानि लेखा ।	

कुल जोड़

कुल जोड़

टिप्पण.—टिप्पण के रूप में समाश्रित दायित्वों की संक्षिप्त विशिष्टियां जोड़ी जा सकेंगी ;

(१) वह रकम जो कि ऐसी कम्पनी निदेशों के अन्तर्गत निक्षेपों के रूप में रख सकती है और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन वस्तुतः धृत निक्षेपों की सकल रकम ।

(आ) यथास्थिति, इस आशय की विवरणी कि विज्ञापन की तारीख को कम्पनी के कोई अतिगोप्य निक्षेप, अदावाकृत निक्षेपों से भिन्न, नहीं है या ऐसे अतिगोप्य निक्षेपों को दर्शाने वाली विवरणी , और

(ट) इस आशय की घोषणा कि .—

(i) कम्पनी ने उसे लागू निदेशों के उपबन्धों का अनुपालन किया है ,

(ii) उक्त निदेशों के अनुपालन में यह अन्तर्निहित नहीं है कि निक्षेपों का प्रतिदाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारण्टीकृत है ;

(iii) कम्पनी द्वारा प्रतिग्रहीत निक्षेप (उन प्रतिभूत निक्षेपों, यदि कोई हो, से भिन्न जिनका प्रतिग्रहण निदेशों के उपबन्धों के अधीन किया गया है, जिनकी सकल रकम उपदर्शन की जानी चाहिए) अप्रतिभूत हैं और अन्य अप्रतिभूत दायित्वों के समरूप हैं ।

4. **विज्ञापन की विधि मान्यता.**—इन नियमों के अनुसरण में निकाला गया विज्ञापन उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कि वह निकाला जाए, कि समाप्ति की तारीख से, छ. मास के अवसान या उस तारीख पर्यन्त जिसको कम्पनी के साधारण अधिवेशन में तुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाए या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजन न हुआ हो वहां, उस सब से अन्तिम दिन पर्यन्त जिसको ऐसा अधिवेशन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोजित होना चाहिए था, इनमें से जो भी तारीख पूर्वतर हो उस पर्यन्त, विधिमान्य होगा, और अत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय वर्ष के दौरान निक्षेप आमन्त्रित करने के लिए नया विज्ञापन निकाला जाएगा।

5. **विज्ञापन की प्रति जो रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी.**—कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से तब तक कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उसको निकासि जाने की तारीख को या उससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंककारी कम्पनी विभाग के उस प्रादेशिक कार्यालय को, जिसकी अधिकारिता में ऐसी कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, विज्ञापन की एक प्रति उस निदेशक बोर्ड के सदस्यों में से बहुमत के हस्ताक्षर के साथ जिन्होंने विज्ञापन का अनुमोदन किया, या उनके लिखित में प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के साथ, परिदत्त नहीं कर दी जाती।

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए उस समाचारपत्र के, जिसमें कि विज्ञापन आया है निकलने की तारीख ही विज्ञापन निकलने की तारीख मानी जाएगी।

[सं० 1/151/75-सी०एल०XIV]

G.S.R. 386(E).—In exercise of powers conferred by section 58A, read with section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on First of July, 1977.

2. In sub-rule (3) of rule 1 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, the proviso shall be omitted.

[No. 1/151/75-CL.XIV]

A CHOUDHURY, Jt. Secy.

सा०का०नि० 386(घ) —केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 584 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये 1 जुलाई, 1977 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 के नियम 1 के उपनियम (3) में परन्तुक का लोप किया जाएगा।

[सं० 1 151 '75—सी एल 14]

ए० चौधरी, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

